

**\*प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 30.08.2021 जनपद देवरिया\***

**\*01. देवरिया पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध अभियान जारी, भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद करते हुए 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 10 अभियोग पंजीकृत किये गए\***

पुलिस अधीक्षक देवरिया डॉ श्रीपति मिश्र द्वारा कच्ची शराब के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान दिनांक 29.08.2021 को समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध अभियान के क्रम में अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत संभावित स्थानों पर दबिस देते हुए कुल 105 लीटर अवैध कच्ची/अंग्रेजी शराब बरामद करते हुए 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए उनके विरुद्ध विभिन्न थानों पर कुल 10 अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*02.वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी:-\***

दिनांक 29.08.2021 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के थाना लार द्वारा 02 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिनका विवरण निम्नवत है।

➡ **थाना लार-** मु0अ0सं0 333/2020 धारा 306 भा0द0वि0 नाम पता अभियुक्त-01.अनीता जायसवाल पुत्री रामदीन जायसवाल 02.रामदीन जायसवाल पुत्र शिवपूजन जायसवाल सा0 लार टाउन वार्ड ना थाना लार जनपद देवरिया।

**\*03. निरोधात्मक कार्यवाही-\***

➡दिनांक 29.08.2021 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है-

जनपदीय पुलिस द्वारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत 33 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया।

**\*04. जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही-\***

➡दिनांक 29.08.2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा शांतिर अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

वाहन चेकिंग के दौरान 90 वाहनों से 90,500 रुपये शमन शुल्क (ई-चालान) किया गया।